

प्रेस नोट:दिनांक 13.03.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 13.03.2023 को अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात गर्वित सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा सनई चौराहा,सिद्धार्थ तिराहा,पेट्रोल पंप तिराहा व साड़ी तिराहा, आदि स्थानों पर पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया एवम सड़को पर अवैध रूप से खडे वाहनों को हटवाया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 53 वाहनों से 55500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

प्रेस नोट- दिनांक 23-03-2023 साइबर सेल, सिद्धार्थनगर ।

Lucky draw के नाम पर फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹43,200/- को साइबर सेल सिद्धार्थनगर ने कराया वापस

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल सुबाष यादव व टीम साइबर सेल द्वारा राम जीवन निवासी महादेवा बुजूर्ग थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए राम जीवन के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹43200/- वापस कराया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता राम जीवन निवासी महादेवा बुजूर्ग थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर से Lucky draw के नाम पर कुल धनराशि ₹ 43200/- का फ्रॉड हो गया । शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो गया । उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को दी गई तथा दी गई शिकायत के आधार पर साइबर सेल टीम की मदद से कार्यवाही करते हुए दिनांक

12/03/2023 राम जीवन के खाते में सम्पूर्ण धनराशि ₹43,200/- वापस कराया गया | साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए श्री राम जीवन द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी |

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम-

- 01- निरीक्षक सुबाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- उप निरीक्षक हरीओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- मुख्य आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 07- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 13-03-2023

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 13-03-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष मीरा चौहान म0हे0का0 सविता सिंह व म0 आ0 प्रियम्बदा सिंह म0आ0नेहा सिंह महत्वपूर्ण योगदान रहा -

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. पूजा पत्नी शेखर साकिन महुआ, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट थाना सिद्धार्थनगर दिनांक 13.03.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

एस0ओ0जी0 व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा गैग्रेस्टर एक्ट में वांछित ₹15000/- के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13-03-2023 को सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में उ0नि0 शेषनाथ यादव प्रभारी एसओजी मय टीम व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस टीम के द्वारा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट में फरार चल रहे 15000/- ₹ के ईनामी अपराधी सोनू यादव उर्फ राजकुमार यादव पुत्र कम्मल यादव निवासी परसाखुर्द थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर स्थायी पता सेखूई कृष्णानगर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 29 वर्ष को पकड़ी चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सोनू यादव उर्फ राजकुमार यादव पुत्र कम्मल यादव (उम्र करीब 29 वर्ष) निवासी परसाखुर्द थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर स्थायी पता सेखूई कृष्णानगर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर मय टीम ।

02- उ0नि0 शेषनाथ यादव प्रभारी एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।

03. हे0का0 राजीव शुक्ला एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।

04. हे0का0 अवनीश सिंह एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।

05. हे0का0 मृत्युंजय कुशवाहा एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।

06. का0 विरेन्द्र तिवारी एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।